

January 24, 2025

To,

National Stock Exchange of India Limited BSE Limited

Exchange Plaza'. C-1, Block G, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Company Symbol: INDOSOLAR Script Code: 533257

Subject: Newspaper Advertisement-Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

To,

Dear Madam/Sir,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the financials published in newspaper Financial Express (English) and b) Janasatta (Hindi) on January 24, 2025. The same has been made available on the Company's website www.indosolar.co.in

Please take the same on your records and suitably disseminate to all the concerned.

For, Indosolar Limited

Akalpita Harnish Patel

Company Secretary and Compliance Officer A40528

Indosolar Limited

FINANCIAL EXPRESS

Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK)

CAN FIN HOMES LTD

Office No-02, 2nd Floor, Plot No B-1 KasanaTower Alpha Road Commercial Belt, Block E. Alpha I. Greater Noida Uttar Pradesh 201308. CIN: L85110KA1987PLC008699 E-mail: greaternoida@canfinhomes.com Mobile No. 7625079164, 0120-4569974 **DEMAND NOTICE**

Under Section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002)"

- APPLICANT: Mr. ABHISHEK KUMAR, Flat No.F-1, First Floor Front LHS Portion Plot No.6, Virandavan Garden, Sahibabad, District Ghaziabad, Pin-201005 Also at: House No 4ARaj Bagh Colony Sahibabad Ghaziabad
- CO-APPLICANT: Mrs. DHARMESH KUMARI, Flat No.F-1, First Floor Front LHS Portion, Plot No.6, Virandavan Garden, Sahibabad, District Ghaziabad, Pin-201005 Also at: House No 4ARaj Bagh Colony Sahibabad Ghaziabad
- Guarantor: Ankush Kumar Dixit 265 A, Shyam Park Main Sahibabad Ghaziabad No. 1 - 3, you have availed a housing loan from our branch against the security of mortgage

of the following asset belonging to No. 1 of you. An amount of Rs. 21,66,299/- (Rupees Twenty One Lakh Sixty Six Thousand Two Hundred Ninety Nine Only), is due from you, to Can Fin Homes Ltd. as on 06.01.2025 together with future interest at the contracted rate. Details of the mortgaged asset

Flat No.F-1, First Floor Front LHS Portion, Plot No.6, Virandayan Garden, Sahibabad District Ghaziabad, Pin-201005

Boundaries: North: As per Sale Deed South: As per Sale Deed East: As per Sale Deed West: As per Sale Deed

Registered demand notice was sent to No.1 - 3 under Section 13(2) of the SARFAESI Act 2002, but the same was returned unserved. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrower/s as per the said Act. Hence this paper publication. As you have failed to adhere to the terms of the sanction, the account is classified as a Non Performing Asset on NPA 29.12.2024 as per the NHB Guidelines. You are hereby called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon from 06.01.2025 DEMAND NOTICE within 60 days from the date of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers guarantors is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of

Date: 23.01.2025 **Place: Greater Noida**

H

HINDUJA

Sr

No.

ime available to them to redeem the secured assets.

Enforcement Rules, 2002 on this the dates mentioned against each account.

incidental expenses, costs, charges, etc. thereon.

Name of Borrowers/

Guarantors

Application no.

UP/LKN/AGRA/A000001255

CO/CPC/CPOF/A000003195

Mr. Pawan Singh & Mrs. Yashu

Chahar, both at: Gajendra Nagar

Colony, Manghatai, Agra, Urban, Agra,

Application no.

UP/LKN/AGRA/A000001807

Mrs. Sangeeta Kumari & Mr.

Satendra, both at: Gali No. 01

Ramakrishna Nagar, Firozabad

Urban, Firozabad, Uttar Pradesh, India

Application no.

UP/LKN/AGRA/A000001848

Mr. Mahaveer Singh & Mrs. Geeta

Singh, both at: Raja Ka Tal Ali Nagar,

Kenjara, Firozabad, Urban, Firozabad

Application no.

UP/LKN/AGRA/A000001493

Mr. Sunil Mahor & Mrs. Geeta & Mr.

Ramesh Chand, both at: House No.

406, Narendra Nagar, Bodla Albatiya

Public School, Agra, Urban, Agra, Uttar

Application no.

UP/LKN/AGRA/A000001386

UP/LKN/AGRA/A000000938

Mr. Deepak Sharma & Mrs. Saroj

Sharma & Mr. Shekhar Sharma, All

at: House No. 6/262, Rani Wala Ghera

Tikoniya, Belan Ganj, Agra, Urban,

Agra, Uttar Pradesh, India -282004.

Dated: 23-01-2025, Place: Agra

CAPITAL

Uttar Pradesh, India -283203.

Pradesh, India-282007.

Jttar Pradesh, India - 283105

Authorised Officer Can Fin Homes Ltd.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015,

Email: auction@hindujahousingfinance.com

203, 2nd Floor, Padam Business Park, Awas Vikas, Agra-282007

RLM-BRAJESH AWASTHI-9918301885, RRM - HARISH CHAND YADAV, 7060411785

CLM - AKSHAY SAWLA - 9515683404, CRM - SACHIN GAUTAM-9319551888

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED under Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security

Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the borrower (hereinafter the borrower and guarantors are collectively referred to as the "the Borrowers") to repay the amount within 60 days from the date of

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of

the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section 4 of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject

to the charge of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED for an amount and future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with

Amount

Outstanding

as on

15-10-2024

₹ 8,73,851

15-10-24

Plus Interest

₹ 6,53,345/-

as on

15-10-24

Plus Interest

thereon

₹ 11,08,170/

as on

15-10-24

Plus Interest

₹ 43,90,509/-

as on

15-10-24

Plus Interest

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Demand Notice Date

Date of Possession

19-10-2024

20-01-2025

SYMBOLIC

19-10-2024

20-01-2025

SYMBOLIC

19-10-2024

20-01-2025

SYMBOLIC

19-10-2024

18-01-2025

SYMBOLIC

25-10-2024

18-01-2025

SYMBOLIC

CAPITAL

Date: 21/01/2025

Place: NEW DELHI

Details of Immovable Property

Khasra No. 478 measuring area 100sq.yards.

Situated at Gajendra Nagar, Mauza Maghtai

Bounded as: East - Rasta & Exit 25ft, West - Plot

No. 19. North - Rasta & Exit 25 ft. South -Part of Plo

One Residential Plot lies in Part of Khasra No.

82/2 measuring area 53.01 Sq.Mtrs. Situated at

Mauza Kakrau, Tehsil & Distt. Firozabad, Uttar

Pradesh-283203., Bounded as: East - Land of Hari

Babu, West - Gali wide 15 ft, North - Plot of Seller

One Residential Plot lies in Part of Khasra No.

121 measuring area 93 Sq.Mtrs, Situated at

Mauza Lalau Kanjeer Tehsil & Distt. Firozabad,

Uttar Pradesh-283203., Bounded as: East - Other

Property, West - Remaining Part of Property, North

One Residential Plot No. 20 & 21, measuring

area 43.33 Sq.Mtrs. Situated at Deernagra

Lohamandi Tehsil & Distt. Agra, Uttar Pradesh-

282007., Bounded as: East - House of Jankidevi,

West - House of Shanti Srivastava, North

One Residential House No. 6/62(Old No. 982),

Situated at Wake Kharikuan, Mausuma Rani

Walaghera, Belanganj, Chhata Ward Tehsil &

Distt. Agra, Uttar Pradesh-282004., Bounded as:

East - Nill West - Nill North - Nill South - Nill

Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Plot of Kailash, South - Rasta wide 20 ft

Property Kullu, South - Road 6 ft

₹ 12,47,934/- One Residential Plot No. 20 lies in Part of

Plus Interest | Tehsil & Distt. Agra, Uttar Pradesh-283105,

South - Others Plot

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266 Branch Office- Aditya Birla Housing Finance Limited No N/17, 1St Floor, Vijaya Building Barakhamba Road, New Delhi - 110001

AAPPENDIX IV [See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice (for Immovable Property)

Whereas the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a Demand notice dated 13-11-2024 calling upon the borrowers SAROJ & RAMEHAR mentioned in the notice being of Rs. 31,88,446/- (Rupees Thirty One Lakh Eighty Eight Thousand Four Hundred Forty Six Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrow-

ers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 21st day of January of the year, 2025. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 31,88,446/- (Rupees Thirty One Lakh Eighty Eight Thousand Four Hundred Forty Six Only) and interest thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the secured assets. **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

All That Piece And Parcel Of Dda Built-Up Flat No. 220, Admeasuring Total Covered Area 22 Sq Mtrs., On Ground Floor, Pocket 9, Category D, Nasirpur Residential Scheme, Category-D. New Dwarka, Nasirpur B.O. South West Delhi, New Delhi-110045, And Bounded As: East: Flat No. 217 And Road-25, West: Flat No. 219, North: Other Flat, South: Road 8 Ft.

> **Authorised Officer** Aditya Birla Housing Finance Limited

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

O.A. 855/2023 IDFC FIRST BANK LTD. ٧s

GUDDU GUPTA

(1) GUDDU GUPTA

KH NO. 1304, PLOT NO. 105, GF- 2 HYAT ENCLAVE, SLF VED VIHAR LONI GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201102

761/23, STREET NO. 23, JOSHI ROAD, KAROL BAGH NEW DELHI- 110005 (2) RENU GUPTA

KH 1304, PLOT NO. 105, GF-2, HYAT ENCLAVE, SLF, VED VIHAR, LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201102

761/23, STREET NO. 23, JOSHI ROAD, KAROL BAGH NEW DELHI- 110005

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 21,11,149.7 (Rupees TWENTY-ONE LAKH ELEVEN THOUSAND ONE HUNDRED FORTY- NINE AND SEVEN PAISA ONLY) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefor, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before on Ld. "Registrar on 19.03.2025 at 10:30 A.M. IST (for further details kindly visit DRT website www.tribunal.gov.in Phone Number: 011-23748473)

Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-

(i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application /software: "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "https://drt.gov.in" under the

In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official

at Ph. No. 011-23748473 Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 02" Jan, 2025.

By Order of this Tribunal Assistant Registrar

IndoSolar Limited

Regd Office: Unit no. 301, 3rd floor, Building 02, Southern Park, Saket, New Delhi-110017, India. CIN: L18101DL2005PLC134879

E-mail: secretarial@waaree.com | Website:www.indosolar.co.in | Telephone No: 022-6939 5500

Extracts of Statement of unaudited Financial Results for the quarter ended and nine months ended December 31, 2024 ₹ in lakhs Sr. Quarter Ended Nine months ended Year ended **Particulars**

No.		December	September		December	December	`March 31,
	8	31, 2024 Unaudited	30, 2024 Unaudited	31, 2023 Unaudited	31, 2024 Unaudited	31, 2023 Unaudited	2024 Audited
1	Total income	10,390.04	2,815.69	8.58	13,215.83	18.20	85.01
2	Net Profit / (Loss) for the period from	,	_,		,		
	ordinary activities (Before tax, Exceptional						
	and /or Extraordinary items)	1,023.05	948.30	(502.76)	1,473.31	(1,062.78)	(1,544.37)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			`			
	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	1,023.05	948.30	(502.76)	1,473.31	(1,062.78)	(1,544.37)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax						
	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	1,023.50	948.30	(502.76)	1,473.76	(1,062.78)	(1,544.37)
5	Total Comprehensive Income for the period						
	[(comprising profit or (loss) for the period						
	(after tax) and other Comprehensive income						
	(after tax)]	1,023.50	948.10	(502.76)	1,473.55	(1,062.78)	(1,544.37)
6	Equity Share Capital						
_	(Face Value 10/- per share)	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						
	as shown in the Audited Balance Sheet of						(5.505.44)
	previous year.	-	-	1	-	-	(5,597.14)
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)						
	(not annualised for the quarter and year ended)	0.40	0.00	(4.04)	0.54	(0.55)	(0.74)
	(a) Basic(in ₹)	2.46	2.28	(1.21)	3.54	(2.55)	(3.71)
- 4	(b) Diluted(in ₹)	2.46	2.28	(1.21)	3.54	(2.55)	(3.71)

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended and nine months ended December 31, 2024 filed with the stock exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited financial result for the quarter ended December 31, 2024 is available on www.bseindia.com and www.nseindia.com and the same is also available on the website of the Company viz www.indosolar.co.in The above unaudited financial results of the company for the quarter ended and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the audit committee and taken on record approved by the Board of Directors as its meeting held on January 22, 2025 The above result are in compliant with Indian Accounting Standard (Ind AS) notified by the ministry of Corporate affairs. For Indosolar Limited

Place: Mumbai Date : January 22, 2025



Hitesh P Mehta Sd/-DIN: 00207506 Director

MOULIN COMMERCIAL LIMITED

Regd Office: 10, Khasra No. 239, M.G Road, Manglapuri, Gadaipur, Delhi-110030, E-mail: info@vinylgroup.com, Website: www.moulin.co.in Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31.12.2024

S. No	Particulars		Quarter Ended	ß	Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2024 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)
1 2	Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before Tax.	14.18	14.56	28.09	42.34	78.80	78.23
	Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	2.89	5.43	12.50	5.65	27.84	10.98
On.	Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after	2.89	5.43	12.50	5,65	27.84	10.98
5	Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and	1,51	5,31	9,13	3.46	20.34	6,76
	Other Comprehensive Income (after tax)]	1.51	5.31	10.37	3.46	20.34	6.76
	Equity Share Capital Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not annualised)	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30	57.30
	Basic : Diluted :	0.26 0.26	0.93 0.93	1.81 1.81	0.60 0.60	3.55 3.55	1.18 1.18

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine month ended 31.12.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine month ended 31.12.2024 are available on the website of the Stock Exchange and the website of the listed entity

The above Unaudited Financial results for the Quarter and Nine month ended 31.12,2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 23rd day of January, 2025. For and on behalf of the Board of Directors

Ashish Gupta

Date : 24.01.2025 Place: New Delhi

Managing Director DIN: 00115090

SECOND FLOOR, GMTT BUILDING

D-7 SECTOR 3 NOIDA (U.P.) 201301

DEMAND NOTICE UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY

Corporate Office: 12th Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East) Mumbai-400 063, MH

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Guiarat - 362 266.

INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE RULES") The undersigned being the Authorized officer of Aditya Birla Finance Limited (ABFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below: In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) to pay to ABFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names,

together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Borrower's. As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to ABFL by the said Borrower's respectively. Demand Notice Sr. Description of

No.	Name and Address of the Borrower(s)	Date & NPA Date	Immovable Property
(-).	1. M/s. Mobile Hut, Through Its Proprietor, Mr. Ajay Asnani 2. Mr. Ajay Asnani, S/o. Jethanand Asnani 3. Mr. Jetha Nand Asnani, S/o. Jammat Mal 4. Mrs. jyoti Asnani, W/o. Jethanand Asnani Add For Sr. No. 1: 8/200, Bhogipura Shahagani Agra, Up-	17.01.2025 & 03.01.2025	All That Piece and Parcel of the Property Bearing Municipal No. 47/202h/27 On Plot No.27 Lies In Khasra No. 523 Having Rea
3.	282001. Also at: Municipal No. 47/202H/27, Plot No.27, Hanuman Nagar, Mauza Bhogipur, Agra - 282010. Add For	Total O/s. Dues Amt.	Measuring 200 Sq. Yds. Stuated At Hanuman Nagar, Mauza Bhogipur, Agra And Bounded
	Sr. No. 2, 3 & 4: 16, Manu Vihar, Phase-2, Maruti Estate, Shahaganj, Agra-282001. Also At: Municipal No. 47/202H/27, Plot No. 27, Hanuman Nagar, Mauza Bhogipur, Agra - 282010. Loan Ac No.: ABAGRSTS000000717187	Rs. 30,17,382/- as on 09.01.2025	as Under: East – 9 Mtrs. Road & Opening, West – Other Land, North – Plot No28, South – Plot No. 26.
	1. Mr. Nand Kishore, S/o. Bhogi Ram 2. Mr. Nand Kishore, Proprietor M/s. Ananya Footwear 3. Mrs. Indrawati, W/o. Nandan Add For Sr. No. 1 & 2 : 46/98 A/1, Bheem Nagar,	18.01.2025 Constructed Thereon, 46/226, Khasra No	All That Piece and Parcel of the House Constructed Thereon, Bearing Municipal No. 46/226, Khasra No141, Having Area Measuring 66.88 Sq. Mtrs. and Covered Area
2.	Jagdishpura Agra-282002 Also at: 46/98R/17b; Bheem-Nagar, Jagdishpura, Agra - 282002. Also at: 46/226, Bhim Nagar, Jagdish Pura, Civil Lines, Agra - 282002. Add For Sr. No. 3: 46/225, Bhim Nagar, Jagdish Pura, Civil Lines, Agra - 282002 Also At: 46/226, Bhim Nagar, Jagdish Pura, Civil Lines, Agra - 282002. Loan Ac No.: ABAGRSTS000000710266	Total O/s. Dues Amt.	Measuring 34.48 Sq. Mtrs. Situated At Bhee Nagar, Lohamandi Ward, Tehsil & District
î		Rs. 23,87,026/- as on 09.01.2025	Agra-282002 and Bounded as Under: East – House of Chottey Lal Kaim, West – House of Bhogi Ram, North – Road 20 Ft. Wide & Opening, South – House of Pappu Mahor
	M/s. Md Supreme Transport Co., Through its Proprietor Mr. Pappu Mr. Pappu, S/o. Sher Mohammad Mrs. Sehnaj, W/o. Pappu	09.01.2025 & 03.01.2025	All That Piece and Parcel of The Residential
3.	Add For Sr. No. 1: Chungi No. 22, Sector-25, Ballabhgarh, Faridabad - 121004 Also At Add For Sr. No. 1, 2, & 3: Plot	Total O/s. Dues Amt.	Plot No. 3520 Area 218.90 Sq. Mtrs. Situated Ta Sector-56-56A, Urban Estate Faridabad
80	No3520, Sector-56-56A, Urban Estate Faridabad, HSVP, Sub-tehsil- Gaunchhi, Faridabad - 121004 Add For Sr. No. 2 & 3: House No165, Hathodi Pradhan Wali Gali, Ranhera Khera, Sector - 25, Ballabhgarh, Faridabad-121004, Loan Ac No.: ABNDSTS000000523784	Rs. 29,95,535/- as on 09,01.2025	(HSVP), Sub Tehsil Gaunchhi, Faridabad, Haryana.

With further interest, additional interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrower's shall fail to make payment to ABFL as aforesaid, then ABFL shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable Property (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the

The said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s) Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of ABFL. That please note that this is a final notice under Sec. 13(2) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that ABFL shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility & costs.

Place: Agra, Delhi / Faridabad, Haryana Date: 24.01.2025

Authorised Officer. ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK POSSESSION NOTICE (For Immovable property) [Rule 8(1)]

mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice.

The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for the amount(s),

Name of Borrower/ Description of the Date of Date of Amount as per Co-Borrower/Mortgagor Immovable property Demand Notice Possession demand notice (1) Dilshad Saifi @dilshad S/o Rasheed @ Rasid All that Part & Parcel of House 24.09.2024 21.01.2025 Rs. 3,96,496/- as Ahmad, H. No. 122, Ward No 63, Bijli Bamba, Nagar Nigam No. 122 House area 50.49 Sq. Yards or 42.30 Sq. on 16.09.2024 and Jamna Nagar, Post Jahidpur, Meerut, Uttar Mt., Mohalla Jamna Nagar, Meerut, Uttar Pradesh which is interest thereon.

Pradesh - 250002; (2) Shamim W/o Dilshad Saifi bounded as follows: Boundaries: East: House Barket Ali, West: House Liyakat, @ Dilshad, H. No. 122, Ward No. 63, Bijli Bamba, North: Property Barket Ali, South: Road. The property belongs to Dilshad Saifi Jamna Nagar, Post Jahidpur, Meerut, Uttar @Dilshad S/o Rasid Ahmad @ Rasheed i.e. no. 1 among you. Pradesh - 250002; In Loan Account No. 2220210080000006. (1) Mohd Saleem Qureshi S/o Abdul Hakim @ A. All that Part & Parcel of Freehold 24.09.2024 21.01.2025 Rs. 18,15,626/- as Hakeem, 814 Kila Kohana, Qaziwara, Hapur, Uttar Residential property admeasuring 162 Sq. yards i.e., 135.50 sq. on 16.09.2024 and Pradesh- 245101; (2) Saqib Qureshi S/o Mohd mts, Palika No. 6-4-1112 situated at Mohalla Kaziwada, Hapur, interest thereon.

Hakim @ A. Hakeem, 6-4/1112, Qaziwara, Hapur, and Mohmad Sharyat @ Sharyat @ Mau. Shariyat both sons of Abdul Hakim @ Uttar Pradesh- 245101, Also At: 814 Qila Kohana, A. Hakeem i.e. no. 1 and 3 among you. Qaziwara, Near Kali Masjid, Hapur, Ghaziabad, Uttar Pradesh-245101; (4) Intasha Begam, W/o Mohmad Sharyat @ Sharyat @ Mau. Shariyat, 6-4/1112, Qaziwara, Hapur, Uttar Pradesh- 245101; Also At: 814 Kila Kohana (Near), Qaziwara, Hapur, Distt: Ghaziabad, Uttar Pradesh-245101, In Loan Account No. 2220210180000019.

Saleem Qureshi, 814 Kila Kohana, Qaziwara, Pargana & Tehsil Hapur, Distt. Ghaziabad, (Now Distt. Hapur), Uttar Pradesh which

Hapur, Uttar Pradesh- 245101; (3) Mohmad is bounded as follows: Boundaries: East: House Mool Chand Sainid, West: Gali Sharyat @ Sharyat @ Mau. Shariyat, S/o Abdul North: Rasta, South: Rasta/Gali. This property belongs to Mohd. Saleem Qureshi

(1) Sunita Devi W/o Madan Singh, 1430, Modi All that Part & Parcel of Residential 25.09.2024 21.01.2025 Rs. 6,50,941/- as Nagar Road, Hapur, Hapur, Uttar Pradesh-house property No. 137, admeasuring 37.63 Sq. Meters, on 24.09.2024 and 245101; (2) Madan Singh S/o Umarav Singh situated at Village Jasrupnagar, out of the premises of Nagar interest thereon.

@ Umrav Singh, 1509, Modi Nagar Road, Palika Hapur, Pargana and Tehsil and District Hapur, Uttar Pradesh which is

Dastoi Marg, Gali No. 7, Hapur, Hapur, Uttar bounded as follows: Boundaries: East: House of Subhash, West: Rasta wide 10 Pradesh- 245101; In Loan Account No. feet, North: House of Ramprasad, South: Rasta. The Property belongs to Madan 2251250250000024. Singh S/o Umrav Singh @ Umarav Singh i.e. no. 2 among you. (1) Shabana S/o Zahid, House No.191, Gali No. 3, All that Part & Parcel of Residential 07.11.2024 | 22.01.2025 | Rs. 15,78,838/- as Shakoor Nagar, Meerut, Uttar Pradesh - 250002; property admeasuring 31.77 sq yards or 26.56 sq. meters on 04.11.2024 and (2) Mohammad Danish Alvi S/o Zahid, House No. bearing House No. 154/B, situated at Naugaza Meerut, Uttar interest thereon. 191, Gali No. 3, Shakoor Nagar, Meerut, Uttar Pradesh which is bounded as follows: Boundaries: East: House of Shammi, West:

Pradesh - 250002; In Loan Account No. Road, North: Road, South: House of Irfan. The Property belongs to Shabana S/o

Zahid i.e. no. 1 between you

Place: Meerut, Hapur & Kankarkhera (UP) Date: 23.01.2025 financialexp.epapr.in

2260210050000013

New Delhi

Authorised Officer

POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorised officer of CFM ARC under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 18,05,2024 under Section13(2) of the Act calling upon the Borrower(s)/Mortgagers(s)/Guarantor(s)- M/s Green World International Pvt. Ltd. through its Director Sh. Radha Raman Gupta, Sh. Ujjwal Gupta, Sh. Vaibhav Aggarwal, Sh. Anurag Srivastava, Sh. Vipul Gupta, Smt. Sneh Raman Gupta, Smt. Sunita Gupta, Harish Chander Gupta HUF (through its Karta Sh. Harish Chander), Sh. Anuj Shrivastava, Sh. Harish Chander Gupta, Late Sh. Prakash Srivastava (through Legal Heirs - Smt. Suman Srivastava, Sh. Anurag Srivastava & Sh. Anuj Srivastava), Rajesh Kumar Gupta HUF (through its Karta Sh. Rajesh Kumar Gupta) & Sh. Rajesh Kumar Gupta torepay the total amount mentioned in the notice being of Rs. 23,87,09,765.16/- (Rupees Twenty-three Crores Eighty-Seven Lakhs Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Five and Paisa Sixteen Only) as on 30.04,2024 with further interest and costs within 60 days from the date of receipt ofthe said notice.

[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002]

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the under signed has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 21st day of January, 2025.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CFM ARC for an amount of Rs. 23,87,09,765.16/- (Rupees Twenty-three Crores Eighty-Seven Lakhs Nine Thousand Seven Hundred Sixty-Five and Paisa Sixteen Only) as on 30:04.2024 being sum total of amount outstanding with further interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All the piece & parcel of the Industrial Land at Plot No. GR 60 & 61, Killa No. 47/5, Khewat No. 164/133 Min (Earlier Khewat No. 133/116) Ganpati Dham Industrial area (GDIA), within Revenue

Estate of Village, Sankhol, within Municipal Limits of Municipal Council, Bahadurgah, Distt. Jhahhar, Haryana, admeasuring 2005 sq. yd. (combined property (i) Plot No. GR-60, measuring area 1027 Sq. Yds Regd vide doc no. 3867 dated 13.08.2009 with Sub-Registrar Bahadurgarh & (ii) Plot No. GR-61, measuring area 978 sq. yd. Regd Vide Doc No. 968 dated 20.05,2009, Total Area is 2005 sq. yd. GR 60 as per sale deed 3867 dated 13.08.2009, bound by:

North: Plot No. GR-61 of Rajesh Kumar Gupta HUF & Smt. Sunita Gupta Factory building of M/s Paksons Pharmaceuticals (P) Ltd (Plot No. GR-63) & Pardeep Rohilla (Plot No.GR-53) South: Plot No. GR-59

Authorised Officer

West Road 44 Feet Wide

GR 61 as per sale deed 968 dated 20.05.2009, bound by: North: Plot No. GR-62 of Bahadurgarh Agro Industries (P) Ltd Factory Building of M/s Paksons Pharmaceuticals (P) Ltd

South: Plot No. GR-60 of Bahadurgarh Agro Industries (P) West Road 44 Feet Wide

Date: 21.01.2025

For CFM Asset Reconstruction Private Limited Place: Delhi

FEDERAL BANK

New Delhi-110008 Ph No.011- 40733980, 40733978 Email: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

LCRD / New Delhi Division, U.G.F., Federal Towers, 2/2, West Patel Nagar,

 Shri. Umesh Kumar, S/o Bhagman Rai, A - 27/25, Flat No.17, Sai Apartment – 1, Khanpur Extension, New Delhi – 110062.

That you as principal borrower had availed Federal Personal Car loan (FPCL) with number 13027400003958 of ₹10,20,000/- (Rupees Ten Lakh Twenty Thousand only)on 30.06.2022 through New Delhi/Nehru Place after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank.

Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank. you have created security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following vehicles:-

DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTY Hypothecation of HYUNDAI VENUE 1.5 CRDI MT S PLUS BS VI, Colour - Polar White, Chassis No - MALFC81DLNM345454. Engine No.D4FANM592806, 2022 Model, Diesel, bearing Registration No. DL12CV7878.

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as

the secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federa Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹7,81,402/- (Rupees seven Lakh Eighty One Thousand Four Hundred and Two only) is due from you as on 02.01.2025under your FPCL with number 13027400003958 maintained with New Delhi / Nehru Place of the Bank. In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 31.12.2024. as per the guideline of RBI. You are hereby called upon to pay the said amount with further @ 9.45% per annum inyour FPCL with monthly rests along with additional/penal charges and costs from 02.01.2025 till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the

Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies

Your attention is also invited to the provisions of section 13(8) of the

recovery of the balance amount without further notice.

available to the bank for recovering its dues. This notice was issued on 3"day of January2025 and the same was served on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFAESI Act.

Dated this the 23" Day of January 2025

For The Federal Bank Ltd., Associate Vice President (Authorised Officer under SARFAESI Act)

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER LCRD / New Delhi Division, U.G.F., Federal Towers, 2/2, West Patel Nagar, New Delhi-110008 Ph No.011-40733980, 40733978 Email: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

 Shri/Smt. Roshan Lal, S/o Sita Ram, H.No. A-1867-14, 2nd Floor, Govindpuri Extn., Kalkaji, South Delhi, Delhi-110019. That you as principal borrower had availed Car Loanwith number 16787400001750 of ₹ 16,00,000/- (Rupees Sixteen Lakh only) including an

insurance premium amount of ₹ 8,700/- on 08.08.2023 through New Delhi/Punjabi Bagh after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank,

you have created security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following vehicles:-DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTY

Hypothecation of Mahindra Thar LX D AT 4WD 4S HT WQ, having Chassis No. MA1UJ4YLTP2H47619, Engine No. YLP4H43696, 2023 Model, Diesel, A3 EVRSTWHT/Everest White Colour, bearing Registration No. T0823JK4523A.

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as

'the secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 14,69,429/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Nine Thousand Four Hundred and Twenty Nine only) is due from you as on 15.12.2024 under your FPCL with number 16787400001750 maintained with New Delhi/Punjabi Bagh of the Bank. In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 14.12,2024 as per the guideline of RBI. You are hereby called upon to pay the said amount with further @ 8.80% per annum in your FPCL with monthly rests along with additional/penal charges and costs from 15.12.2024 till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice.

Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties).

This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues. This notice was issued on 17" day of December 2024 and the same was served on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFAESI Act.

For The Federal Bank Ltd., Associate Vice President Dated this the 23" Day of January 2025 (Authorised Officer under SARFAESI Act)

CIN: L85110KA1987PLC008699



एच.बी.टी.यू. कानपुर परिसर में कम्प्यूटर साइंस इन्जीनियरिंग भवन के विस्तारीकरण तथा मरम्मत के कार्य हेतु खण्ड कार्यालय के पत्र सं. 171 / एस-1 / 02 दि. 23.01.2025 द्वारा ई-निविदा सूचना आमंत्रित की गयी है, जिसकी विस्तृत सूचना ई-टेण्डर वेबसाइट etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अधिशासी अभियन्ता

पत्र हं. 175/एस-1/03 **हं-जिविदा सूर्वा** दिनांक: 23/01/2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण सण्य कानपुर-01 अभिन कान्यतेका योजना सं-1, कल्यानदुर, कर्मपुर E-mail-eacdkanpur01@gmail.com

'प्रपत्र सं. आई'एनसी-26' (कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) क मामल में

मैट्रिक्स रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U70100DL2010PTC204966) जिसका पंजीकृत कार्यालय : कंबिन-2. ऑफिस 1221-ए, देविका टीवर, 12वा पलोर, ६, नेहरु फोस, नई दिल्ली–110019, इंडिया, में रिधत हैं के मामले में

...याचिकाकर्ता आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समाध अंगली करिय धारा 13(4) के तहत खंड 🏿 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से **'हरियाणा राज्य'** में रथानांतरित करने के लिए तारीया बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025 की आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकटम के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत

तो यह या तो निवेशक शिकायत प्रारूप इल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्तयोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई

कार्यालय के प्रस्तावित परिर्वतन से प्रनावित होता है

दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत ठाक द्यारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा केबिन-2, ऑफिस नं. 1221-ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, ६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, इंडिया.

कृत्ते मैट्रिक्स रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड हस्ता/-तिथि : 24.01.2025 अनुराग बुलक्षेच्ठ स्थान : नई दिल्ली डीआई एन : 09760926

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के गामले में

एटोक्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U72900DL2021PTC389084) जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्रॉप न. ए–1/60 यू/जी फ्लोर, खसरा नं. 156/2, फ्रीडम फाइटर ल्क्लेव, नेब सराय, साकथ विल्ली, विल्ली-110038

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राज्यानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार 06 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम द्वापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के फंगोकत कार्यालय के प्रस्ताचित स्थानांतरण से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें तनके हित का प्रकार और तसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निवेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुधना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आदेवक कंपनी को उनके उपरोक्त प्रतीकृत कार्यालय के पत्ते पर भी मेजेगा। प्रॉप न. ए-1 /60, यू / जी फ्लोर, खसरा न. 156 / 2. फ्रीडम फाइटर एन्वलय, नेब सराय, साऊक दिल्ली,

दिल्ली-110038 इंडिया कृते आवेदक की ओर से एट्रोक्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड

तिथि : 24.01.2025 स्थान : नई दिल्ली

दीपाश बिष्ट ਫੀआईएन : 09379383 पता : एव मं -22 शक्ति विहार कॉलोनी रुद्रपुर, अटरिया रोड, उधम सिंह नगर

हस्ता/

पीवय मना

अंतरिम समाधान पेशेवर

एमबीएल (एमपी) टोल रोड कंपनी लिमिटेड के मामले में

IBBI/IPA-001/IP-P00990/2017-18/11630

चत्तरखण्ड-263153, इंडिया फॉर्म ए

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन] एमबीएल (एमपी) टोल रोड कंपनी लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ						
30.4	प्रासंगिक विवरण					
1.	कॉपेरिट देनदार का नाम	एमबीएल (एमपी) टोल रोड कंपनी लिमिटेड				
2.	कॉपरिट देनदार के निगमन की तिथि	31/10/2011				
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	आरओसी दिल्ली				
4	कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U452040L2011PLC226845				
5.		पंजीकृत कार्यालयः बानी कॉर्पोरेट वन टावर, सूट नंबर 30 तीसरी मंजिल, पीटी नंबर 5, जिला वाणिज्यिक केंद्र, आरश् जसोला, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत. 110076 प्रधान कार्यालयः एमबीएल, नेवरगांव, ग्राम पोस्ट नेवरगां तहसील - वारासिवनी लालबुर्रा, बालाघाट, मध्य प्रदेश 481331				
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ तिथि	21/01/2025				
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	20/07/2025				
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में	पीयूष मूना IBBI/IPA-001/IP-P00990/2017-2018/11630				
9.		यूनिट 1406-बी, 14 वीं मंजिल, आइकॉनिक टॉवर - कॉरेटर ए-41, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 piyushmoona@gmail.com				
10.		यूनिट 1406-बी, 14 वीं भंजिल, आइकानिक टॉवर - कोरेट्य ए-41, सेक्टर 62, नीएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 cirpofmblmptollroad@gmail.com				
11.1	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि					
12.	तहत अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निधरित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों					
13.	प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवालियापन पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	000000				
14.	(a) प्रासंगिक प्रपत्र और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है :	जात संपर्के : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads आज तक आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसा यह लागू नहीं है।				

समाधान प्रोपेशनल के समझ ऊपर आइटम 10 के समझ वर्गित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तृत कर संकर्त हैं ।

प्रपत्र सीए में निदर्शित करेगा, लागू नही

दिनांकः 24 जनवरी 2025

स्थानः नोएडा

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंढनीय होगी।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाम केवल इलेक्ट्रॉनिक सावनों हारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य रामी लेनदार अपने दावों

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदाए, जैसा कि प्रविधिः स. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है; अधिकृत प्रतिनिधि के सम में कार्य

करने के लिए प्रविध्दि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि

COURT NOTICE The Court Of Sh.

Akashdeep Singh Malwai Judicial Magistrate First Class-11, Jalandhar

Rajni Vs. Rajbir CNR NO: PBJL03-037018-2023 Next Date: 02-04-2025

detail of offence: Publication Issued To: Rajbir : S/o Sh. Naresh Kumar R/o Hno 371 Kanjhawala North West Delhi 110081

In above titled case, the accused could not be served through non ballable warrants of arrest proclamation is hereby made the said rajbir is required to appear before this court (or before me) me 02-84-2025 to answer the said complaint/case failing of which he shall be declared person, it is ordered that accused should appear in person or through counsel on 02-04-2025 at 10:00 a.m. for details logen to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=dist ict_notice&district=Jalandhar Judicail Magistrate First Class-11

Jalandhar

"प्रपन्न सं. आईएनसी-26" (कंपनी (निगमन) निवमावली, 2014 के निवम 30 के अनुपालन में) कॅन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम्, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी

के मामले में स्प्रिंगमाउंट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2020PTC368055)

जेसका पंजीकृत कार्यालयः १६०१ए, हेमकुट चैम्बर

(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए)

89 नेहरू प्लेस, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली दिल्ली-110019, इंडिया, में रिधत है के मामले मे ...**याचिकाकर्ता** आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड II के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली" से** तारीख बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025 को

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिर्वतन से प्रभावित होता है तो यह या तो निवेशक शिकायत प्रारुप काइल् कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शमध रच जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके रिश्च का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्तयोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई **दिल्ली–110003** के पते पर पंजीकृत डाक द्वार भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की चनके निम्नलिखित पंजीकृत हार्यालय के पते पर भी भेजेगा

त्रिवेणी अपार्टमेंट, ए-94, शॉप नं. 1 स्वयं सेवा युप हाऊसिंग सोसाइटी, विवेक विहार, नई विल्ली-110095, इंडिया. कृतो स्प्रिंगमाउंट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड तरुण सिंघल निदेशक तिथि : 24.01.2025 स्थान : नई दिल्ली डीआई एन : 03418308 प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपघारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

वैनेसा बाइंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: : U74140DL2010PTC206690) जिसका पंजीकत कार्यालय**्पलैट नंबर 753**. कावेरी अपार्टमेंट पॉकेट-6, सैक्टर-डी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 15 जनवरी 2025 की आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताद के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के यंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए--21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उठिलखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

फ्लैट नंबर 753, कावेरी अपार्टमें ट पॉकेट—6, सैक्टर-डी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से बैनेसा बाइंग सर्विसेज प्राइबेट लिमिटेड

इस्ता/-दिनांक : 23.01.2025 **महेशा नंद शर्मा** (निदेशक स्थानः नई दिल्ली डीआईएन : 02780254

सेव हाउसिंग फाइर्नेस लिमिटेड (पूर्व में म्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपर्सेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कार्यलयः खूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110075, ई-मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in वेबः www.savehfl.in, मो.: +91-9810083317

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सेव डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पडले न्यू डैबिटेट डाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से नीवे वर्णित ऋणधारकों / सह ऋणधारकों द्वारा ाप ऋणों जो नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित शेष बकावे के साथ एनपीए बन चुका है, के संदर्भ में। इमने पहले ही स्पीड पोस्ट द्वारा वितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण ए निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफैरी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें मांग सूचना का विवरण जारी किया था। इमने, यदि आप 80 दिनों के भीतर नी वर्णित राशि का मुनतान करने में विफल होते हैं, तो सरकेशी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप मैं से एक के स्वामित्व की प्रतिमृतियों का कब्जा करने की अपनी मंशा दर्शा दी थी। यदि आप यहां नीचे वर्णित देयता का निष्पादन नहीं करते हैं तो सेव डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिमृत क्रेडीटर सरकेशी अधिनियम की धारा 13(4) के माध्यम से प्रवत्त केसी एक अधिकारों को प्रयोग कर सकता है तथा सरकेशी अधिनियम के अंतर्गत तथा वांछित रूप में इलेक्ट्रोनिक या किसी जन्य पद्धति में कब्जा सूचना / नीलामी सूचना काशित करने के अतिरिक्त सेव हार्जिंग पाड़नेंस किमिटेड / प्रतिमृत डोडीटर आपका फोटोग्राफ मी प्रकाशित कर सकता है। विवरण इस प्रकार है

सूचना तिथि प्रतिभूत परिसम्पत्तियाँ का विवरण ऋणधारकों / सह-ऋणधारकों का नाम मांग और एनपीए की तिथि बकाया राशि कारता संख्या HSG/N/HEA/LUC/0224/0007 और 20/01/2025 आवासीय पलैट नंबर ३०३, तृतीय तल, NHS/N/HEA/LUC/0324/0002 जिसे 03/01/2025 को एनपीए वर्गीकृत किया Rs.34,55,650/- अपार्टमेंट", मूखंड खसरा संख्या 703 एस पर स्थित, कंमा पर निर्मित क्षेत्रफल 90.89 वर्ग मीटर, मोहरला:- मिलावा गया है। 1. हरदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जिंदरपाल सिंह, 2. जसमीत कौर पत्नी (ऋषि नगर),वार्ड-गीतापल्ली, तहसील और जिला लखनऊ रवर्गीय श्री जिंदरपाल सिंह. 3. हरनीत कौर पुत्री स्वर्गीय श्री जिंदरपाल सिंह और पूर्व : पलैट संख्या ३०२ 4. इंद्रप्रीत कौर पत्नी हरदीय सिंह, निवासी यसैट नंबर 303, ऋषि नगर अपार्टमेंट, आलमबाग, लखनक, उत्तर प्रदेश-226005 यहां भी:- लक्ष्मी फार्मा, दिल लखनवी उत्तर : प्रवेश और मार्ग प्लाजा, प्रथम तल 110 / 18. शिवाजी मार्ग, नया गांव पर्वी लखनऊ-226018

उपरोक्त ऋणधारकों / सह—ऋणधारकों को सलाह दी जाती कि 1) अधिक तथा सम्पूर्ण विविरणों के लिये अधोहरताक्षरी से मूल सूचना प्राप्त करें, तथा 2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कारवाई से बचने के लिये उपरोक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज तथा लागत आदि के साथ शेष बकाये राशि का भुगतान करें।

प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक 22-01-2025, स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश

इंडोसोलर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 301, तृतीय तल, बिल्डिंग 02, सदर्न पार्क, साकेत, नई दिल्ली– 110017, भारत, सीआईएन : L18101DL2005PLC134879

ई-मेल : secretarial@waaree.com । वेबसाइट : www.indosolar.co.in । दूरभाष सं.: 022- 6939 5500 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का साराँश

क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष	
सं.		31 दिसंबर 2024	30 सितंबर 2024	31 दिसंबर 2023	31 दिसंबर 2024	31 दिसंबर 2023 (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च 2024	
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)	
1 2	कुल आय साधारण गतिविधियों से अवधि हेतु निवल	10,390.04	2,815,69	6.58	13,215.83	18.20	85.01	
3	लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,023/05	94830	(502.76)	1,473.31	(1,062.31)	(1,544.37)	
4	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों	1.023.05	948.30	(502.76)	1,473.31	(1,062.78)	(1,544,37)	
5	के उपरांत) कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा	1,023,50	94830	(502.76)	1,473.76	(1,062,71)	(1,544,37)	
6	असाधारण मदों के उपरांत) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु	1,023,50	948.10	(502.76)	1,473.55	(1,062.78)	(1,544.37)	
,	लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	4,190.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,190.37	
8	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10 / – प्रति अंश का अंकित) आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर)	2	-				(5,507.14)	
	पूर्ववर्त्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार	2.49 2.45	2.29 2.28	(1.21)	3.54 3.54	(2.55) (2.55)	(3.71)	

उपरोक्त साराँश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा समाप्त नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश हैं। दिनाँक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, www.bseindia.com एवं

www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.indosolar.co.in पर उपलब्ध है। . दिनॉक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा समाप्त नौ माह के कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 22 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है।

3. उपरोक्त परिणाम, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुपालन में हैं। कृते इंडोसोलर लिमिटेड हितेश पी मेहता हस्ता./-डीआईएन : 00207506 दिनाँक : 22 जनवरी, 2025 निदेशक



SG MART LIMITED

(Formerly known as Kintech Renewables Limited) CIN: L46102DL1985PLC426661

Registered Office: Ho. No. 37, Ground Floor, Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corporate Office: A-127, Sector-136, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.- 201305 Email: compliance@sgmart.co.in Website: www.sgmart.co.in Tel: +011-44457164

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

S. No.	Particulars	Quarter ended December 31, 2024 (Unaudited)	Nine Months ended December 31, 2024 (Unaudited)	Quarter Ended December 31, 2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	1,345.29	4,305.25	748.26
2	EBITDA	47.63	126.42	26.65
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	37.45	95.24	23.17
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after , Exceptional and/or Extraordinary items)	37.45	95.24	23.17
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.04	70.30	17.19
6	Total Comprehensive income for the period	29.04	71.32	17.19
7	Equity Share Capital	11.23	11.23	5.58
8	Other Equity	-	22	
9	Earnings Per Share (face value of ₹ 1/- not annualised for quarterly figures)			
	Basic:	2.50	6.28	1.88
	Diluted:	2.39	5.98	1.83

Brief of Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024;

Particulars	Quarter ended December 31, 2024 (Unaudited)	Nine Months ended December 31, 2024 (Unaudited)	Quarter Ended December 31, 2023 (Unaudited)
Income from Operations	1,281.96	4,205,48	748.26
Profit Before Tax	37.04	96.57	23.17
Profit After Tax	27.63	71.63	17.19

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website at https://sgmart.co.in/investorrelations/finacial-report/. The Same can be accessed by scanning the QR Code provide below:

Place: Noida Date: 23rd January, 2025



For SG Mart Limited Amit Thakur Whole Time Director

'प्रपत्र सं. आईएनसी-26' (कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) कॅन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

युक्ता इनकाकॉन प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U70101DL2012PTC237297) जिसका पंजीकत कार्यालय : त्रिवेणी अपार्टमेंट ए-94 शॉम नं 1 स्वयं सँवा ग्रुप हाकसिंग सोसाइटी, विवेक विहार, नई दिल्ली-110095, इंडिया में रिधत है के मामले में ..याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड 🛭 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से ररील बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025 को बसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिर्वतन से प्रभावित होता है तो वह या तो **निवेशक शिकायत प्रारुप फाइल** कुर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है वा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तस, पंडित दीनदयास अन्तयोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई

मेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा त्रिवेणी अपार्टमेंट, ए-94, शॉप नं. 1 स्वयं सेवा ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, विवेक विहार, नई दिल्ली—110095, इंडिया, कृत्ते युक्ता इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड हस्ता/-

दिल्ली–110003 के पते पर पंजीकृत डाक दवारा

नागेन्द्र कुमार निदेशक तिथि : 24.01.2025 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 03308778

फॉर्म सं0. आईएनसी-26 किंपनीज (निषमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दुसरे राज्य में स्थानान्वरित करने के लिए विद्यापन केंद्रीय सरकार के समझ (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंव, दूसरा पलोर, पं दीनदवाल अंत्वोदय मवन, दूसरा पसोर, सीजीओ कॉम्पलेक्स,

नई विल्ली-110003 कंपनील अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में

देशपाज सोलर एनर्जी प्राइवेट सिमिटेड (CIN: U40300HR2022PTC104909) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 51-52 फेज-4 उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 122015 में है के मामले में

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "पश्चिम बंगाल राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य गैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र (केंद्रीय सरकार) के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तृत किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकत

कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत कॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत वर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, के पते बी-2 विंग, दूसरा प्रलोर, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरा फ्लोर, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत ढाक द्वारा सुचित करें, और एक प्रतिसिधि वावेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

पताः प्लॉट नंबर 51-52 प्रेज-4 छद्योग विहार, गुरूनप्रम, हरियाणा, भारत, 122018 कृते देशराज सोलर एनजीं प्राइवेट लिमिटेड

रु लाख में

विकास भीवास्तव (निदेशक) विषि: 23.01.2025 DIN: 06396407

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in manner whatsoever.



साथ देय है।

केन फिन होम्स लिमिटेड शॉप नं. ४, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र कामर्शियल बेल्ट, अल्फा–1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन–201308

ई-मेलः greaternoida@canfinhomes.com मोबाइल सं: 7625079164, 0120-4569974

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 (2002 का सं 54) की धारा 13(2) के अधीन

आवेदकः श्री अभिषेक कुमार, फ्लैट नंबर एफ-1, पहली मंजिल सामने बाईं ओर का भाग, प्लॉट नंबर 6, वीरंदावन गार्डन, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, पिन– 201005 अन्य पताः हाउस नंबर ४ए राज बाग कॉलोनी साहिबाबाद गाजियाबाद सह-आवेदकः श्रीमती धर्मेश कुमारी, फ्लैट नंबर एफ-1, पहली मंजिल सामने बाईं ओर का

अन्य पताः हाउस नंबर ४ए राज बाग कॉलोनी साहिबाबाद गाजियाबाद . **गारंटरः अंकुश कुमार दीक्षित,** 265 ए, श्याम पार्क मेन साहिबाबाद गाजियाबाद नंबर 1 से 3, आपने हमारी शाखा से **नंबर 1** की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखने की जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये की राशि रु. 21,66,299 / — (रुपये इक्कीस लाख छियासठ हजार दो

भाग, प्लॉट नंबर ६, वीरंदावन गार्डन, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, पिन— 201005

बंधक रखी आस्ति का विवरण फ्लैट नं.एफ–1, प्रथम तल सामने बायां भाग, प्लॉट नं.6, वृंदावन गार्डन, साहिबाबाद, जिला

सौ निन्यानबे मात्र) 06.01.2025 को कैन फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के

गाजियाबाद, पिन— 201005 संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः बिक्री विलेख के अनसार. दक्षिणः बिक्री विलेख के अनुसार

अधीन उपरोक्त प्रतिभृति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेत् बाध्य होगा।

पश्चिमः बिक्री विलेख के अनुसार

पर्वः बिक्री विलेख के अनुसार आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्रमांक **1 से 3** को प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपुर्दगी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जदार / रों के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चस्पा करवा दी है। अतः समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। चूंकि आप मंजूरी की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः यह खाता एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 29.12.2024 को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान

दिनांक 06.01.2025 से उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से

60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के

इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 23.01.2025 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः ग्रेटर नोएडा केन फिन होम्स लिमिटेड

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार एलसीआरडी / नई दिल्ली डिविजन, यू.जी.एफ., फेंडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर,

नई दिल्ली-110008 कोन नं. 011-40733980, 40733978 ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in सरफ़ेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के

साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना **(1) श्री उमेश कुमार पुत्र भगमान राय,** ए—27 / 25, फ्लैट नं. 17, साई अपार्टमेंट—1, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली— 110062

कि आप ने प्रमुख उधारकर्ता के रूप में बैंक के पक्ष में अनिवार्य प्रतिभूति अनुबंधों / ऋण प्रलेखों का निष्पादन करने के उपरांत नई दिल्ली / नेहरू प्लेस के माध्यम से 30.06.2022 को रु. 10,20,000 / – (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र) का संख्या 13027400003958 के साथ फेंडरल पर्सनल कार लोन (एफपीसीएल) प्राप्त किया था।

बैंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सुविधाओं की प्रतिभूति के प्रति, आप ने निम्नलिखित वाहने के संबंध में दृष्टिबंधन के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सुजित किया था :--

दृष्टिबंधककृत चल संपत्ति का विवरण

हुंडई वेन्यू 1.5 सीआरडीआई एमटी एस प्लस बीएस VI का दृष्टिबंधन, जिसका रंग – पोलर व्हाइट, चेसिस नंबर MALFC81DLNM345454, इंजन नंबर D4FANM592806, 2022 मॉडल, डीजल, पंजीकरण संख्या DL12CV7878

उपर्युक्त दृष्टिबंधककृत / बंधककृत संपत्तियाँ जो यहाँ इसमें इसके उपराँत 'प्रतिभूत परिसंपत्तियों' के रूप में संदर्भित हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वह द फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदद्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक की नई दिल्ली / नेहरू प्लेस शाखा के साथ अनुरक्षित संख्या 13027400003959 के साथ आपके एफपीसीएल के अंतर्गत 02.01.2025 के अनुसार आपकी ओर से रु. 7,81,402 / – (रुपये सात लाख इक्यासी हजार चार सौ दो मात्र) की एक राशि देय-भुग्तेय है। प्रतिभुगतान में हुई चूक को दृष्टिगत रखते हुए आपके ऋण खाता / खातों को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार 31–12–2024 को अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, 02.01.2025 से भूगतान की तिथि तक आपके एफपीसीएल के अंतर्गत अतिरिक्त / दांडिक शुल्कों एवं लागत तथा लागतों के साथ मासिक शेषों के साथ 9.45 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान कर दें, और भुगतान करने में विफल होने पर बैंक जो है वह आपके तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें आपको कोई भी भावी सूचना दिये बिना बकाया देयराशियों की वसूली करने हेतु प्रतिभूत परिसंपत्तियों का पट्टा, समनुदेशन अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने अथवा उनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने के अधिकार सहित उनका अधिग्रहण करने जैसे प्रयोग सम्मिलित होंगे। यह सूचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों में से किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। अपने दायित्व का निर्वहन करने में आपकी विफलता की स्थिति में बैंक जो है वह ऊपर उल्लेखितानुसार उपचारात्मक कार्रवाइयां आरंभ करेगा और आप इसके बाद उक्त से संबद्ध बैंक को देय समस्त लागतों, प्रभारों और उपगत व्ययों का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री से होनेवाली आय से बकाया देयराशियों की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, तो बैंक जो है वह कोई भावी सूचना दिये बिना ही शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में कार्रवाई करेगा।

आपका ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों (प्रतिभूत संपत्तियों) के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

यह सचना जो है वह अपनी देयराशियों की वसूली करने के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गई है। यह सूचना 3 जनवरी 2025 को निर्गत की गई थी और सूचना आपको प्रेषित की गई थी / भेजी गई थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपको प्राप्त नहीं हुई है इसीलिये सरफॉएसि अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की अनिवार्यता

आज दिनांक 23 जनवरी 2025

रेलगाड़ी संख्या 64430 नई दिल्ली - गाजियाबाद ईएमयू 26.01.2025 को निरस्त रहेगी।

रेलगाडी संख्या 64077 पलवल - नई दिल्ली ईएमय 26.01.2025 को निरस्त रहेगी।

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सह उपाध्यक्ष (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकत अधिकारी)

🖝 रेलयात्री कृपया ध्यान दें! 🖜

महत्वपूर्ण सूचना

दिनांक 26.01.2025 (रविवार) को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान तिलक ब्रिज से रेलगाड़ियों का आवागमन अस्थाई तौर पर स्थगित रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर रेलगाड़ियां निम्नानुसार निरस्त/परिवर्तित मार्ग से अथवा कुछ समय के लिए रोककर चलाई जाएंगी: दिनांक 26.01.2025 को रेलगाडियों का निरस्तीकरण

रेलगाड़ी संख्या 64411 साहिबाबाद – दि	ल्ली जं. ईएमयू 26.01.2025 को निरस्त रहेगी।					
लगाड़ी संख्या ६४४२३ गाजियाबाद – नई दिल्ली ईएमयू २६.०१.२०२५ को निरस्त रहेगी।						
दिनांक 26.01	.2025 को रेलगाड़ियाँ का मार्ग परिवर्तन					
रेलगाड़ी संख्या एवं नाम	परिवर्तित मार्ग					
64426 नई दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू	नई दिल्ली-दिल्ली जं,-दिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद के परिवर्तित मार्ग पर चलाई जायेगी					
64012 शकूरबस्ती-पलवल ईएमयू	शकूरबस्ती-पटेल नगर-दिल्ली सफदरजंग-हज़रत निजामुद्दीन के परिवर्तित मार्ग पर चलाई जायेगी एवं पलवल को वापिस जायेगी					
64434 दिल्ली जं.—गाजियाबाद ईएमयू	दिल्ली जंदिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद के परिवर्तित मार्ग पर चलाई जायेगी (दिल्ली जंनई दिल्ली के बीच निरस्त रहेगी)					
64055 पलवल—गाजियाबाद ईएमयू नई दिल्ली—दिल्ली जं. से साहिबाबाद के परिवर्तित मार्ग पर चलाई ज						
12423 डिब्रुगढ़ शहर-नई दिल्ली राजधानी एक्स. साहिबाबाद-दिल्ली शाहदरा-दिल्ली जं. से नई दिल्ली के परिवर्तित मार्ग पर चलाई						
12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्स.	साहिबाबाद-दिल्ली शाहदरा-दिल्ली जं. से नई दिल्ली के परिवर्तित मार्ग पर चलाई जायेगी					
12056 देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी एक्स.	साहिबाबाद-दिल्ली शाहदरा-दिल्ली जं. से नई दिल्ली के परिवर्तित मार्ग पर चलाई जायेगी					

दिनांक 26.01.2025 को रोककर	चलाई जाने वाली रेलगाड़ियाँ	
रेलगाड़ी संख्या एवं नाम	स्टेशन जहाँ रेलगाड़ियाँ रोककर चलाई जायेगी	
14086 सिरसा – तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस		
20506 नई दिल्ली – डिब्रुगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस		
11078 जम्मू तयी – पूणे जं. झेलम एक्सप्रेंस	परेड के समाप्त होने तक यह रेलगाड़ियाँ नई दिल्ल स्टेशन पर विनियमित की जा सकती है।	
15128 नई दिल्ली – वाराणसी जं. काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस		
02570 नई दिल्ली – दरभंगा जं. क्लोन विशेष		
12204 अमृतसर जं. — सहरसा जं. गरीब रथ एक्सप्रेस	इस रेलगाड़ी को नई दिल्ली स्टेशन पर रखरखाव कार्य के कारण अस्थाई रूप से दिल्ली जं. पर स्थानांतरित कर दिया गया है।	
12925 अमृतसर जं. – मुंबई सेन्ट्रल पश्चिम एक्सप्रेस	परेड के समाप्त होने तक यह रेलगाडियाँ हजरत	

20839 रॉची-नई दिल्ली राजधानी एक्स. साहिबाबाद-दिल्ली शाहदरा-दिल्ली जं से नई दिल्ली के परिवर्तित मार्ग पर चलाई जायेगी

22125 नागपुर – अमृतसर जं. वाता. सुपरफास्ट एक्सप्रेस निज़ा**मुद्दीन स्टेशन पर विनियमित की जा सकती है।** रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी अन्य जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाईन नं. 139 पर सम्पर्क

करें अथवा रेलवे की वेबसाईट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें। www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें रेलमदद वेबसाइट देखें:-

रेलमदद हेल्पलाईन न.





आपकी सुविधा – हमारा ध्येय हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ